आशा सफूकुथि
ASHA ARCHIVES
775
I

राजायाजात्रास
सिद्धिजुयुम
खु

ती
र्थजा
त्रासनेव
उत्खवनासि
द्धिजुयव

तीर्थजात्रानतानंया
यमद्व्यान्तयाऽनं
द्धयिमखु॰

तीर्थसज्याथजुंसेलि
निनिस्थिरनवोने
परथीव

का
मनाती
र्थसतीका
लेसिद्धिजुयव

उ पडवजुवनम
यदगुमखु
संग्रामन
थवदेशलिहा
वयेफ्यु

विदेशसचोङ[illegible]वङ
लननानंवयुव॥

शत्रुवल्याजनथ
वजयजुयु

[illegible]मत्या[illegible]
वियानेथवतबुरव
उयु

[illegible]ष्टमी॥ पुत्र॥

नीर्थसल्यापर्हे
निसेज्याथमजूलो

संग्रामसजयजुयु

वि[illegible]षसचोङव
चोङलननानं[illegible]यु
लामवयुलोलाये॥

लेंवा[illegible]फयुव॥

राजायाजनस्थि
द्धिदयु

रा
जाया
जाङ्गल
कृतथित
द्धियुव

नीर्थजात्रासतव
विघ्नजुयुधनफु
यु

कामनातीर्थस
लंपुनलद्धिजु
यु

ती
र्थजा
त्रायाये
मफुकलं
चिंतालंम
नसिद्धिजुयुव

विदेशसचोङ्‌म्ह
खुलानथिवयी
व

उपद्रवनुवने
धंधाकायमते

विदेशसचोङ्‌म्हव
पुमखु

दामन्वायवि
यानमध्याम
फल

नीर्थसताका
लंस्थिरणचोने
दयुव

संग्राममनविलभनथ
वछेवनेदयुव

नवमी ॥ ५८
ससविससमदयक

कामनातीर्थसकाम
नासिद्धिजुयुमखुम

विदसतचोङ्‌म्हडायु
लासोये॥

जुयफु

संग्राममयाङमिल
जुयखुंयुद्धजुयु

रा
जो या
जात्राक
ल्यानजुयु

राजायायात्रानना
नंसिद्धिजुयुव

तीर्थजात्रासुखनं
सिद्धिजुयु॥

नी
र्थजात्रा
याङनधनं
फुयुयमनंदुः
खसियुव

विदेशसचोङ ललिवयिव विदेशस चोङ ललि हावयूनो	ज्याछोयाल्लयाज्या मसिधकंवला	तीर्थसचोने फयुमखु कामना तीर्थससंपू र्णसिद्धिजुय
उपद्रवजुवनवध ङभयपदयिव	दशमी ॥ ५८ ज्याछोयाल्लनज्या सिद्धयाङवयूला मवपूलाछोय	तीर्थजात्राताकाल नसिद्धजुयुव ॥
संग्राममनलि हावनेदयीम खू सं ग्राम सथव जयजुयुम खू	राजार्यजात्रासंपू र्णसिद्धिजुयुव	तीर्थजात्रानिविघ्नं सिद्धिजुयुमला रा जायाजा त्रेसपाला त्रासिद्धिजु लाय युमखु

ज्योक्षियात्सव
थिव

विदेशस
बोङ्स्मनना
नं श्चोथिव

बोजमङुस्तमदतो

कामनायानाती
र्थससिद्धिजु
सुव॥दम नीर्थजात्रा
त्पापवि दछिनसिद्धि
यान जुयुव

विदेशसवङ्‌ सल

एकादशी ६०
बोजखवसिदयक
विदेशलवनसासि
तलादानूलाय॥
ली

तीर्थजात्राव्रनलस

नायीव

सवल

उपद्रवजुवनभयद
थिवमखुकल्या
राजुयु

सं
ग्रामन
लिहावने
फसुव

संग्रामसजयजुयि
वथवमनलग्यान
न्दज्ञयुव॥

राजायाजात्राका
रा लननसिद्धिजुयुव
जाया
जोत्रास
मध्यमफ
ल

राजमङ्लबारा॥
जुयाव चोनग्वा
ग्याको कनि
याम्लपाङ्ला
लाननेलिहाचल

विदेशसचोङ
म्पिहाचल

तीर्थयात्राननानं
सिद्धिजुय तीर्थया
त्रालवधि
वसलुधनजक
जुय

विदेशशचोङ
लविलमनवयीव

द्वादशी॥ ६१
विदेशसचोङलिलि
लावललामवनिला
सोये॥

राजाया यात्राल
थनेकाविलीम
जुयव

विदेशसचोङ
लदविसलि
लावयीव
ङप
ङवङव
नेभयदयी

संग्रामसमलाकि
लिलायीव॥

राजायजात्राल
मरणजुयु
सं
ग्राम
सथवर्ग
यङ्घीमखु
सेन्यफुरयाव

विदेशसचोड्स
पिलमडानि

षोजमद्रूल
सुवेनचोनकाल
नेउनिवयूव

विदेशसचोड्स
थेकनासंवोनउनि

तीर्थयात्राविलं
सनसिद्धिव
यूव

गजाया
न्यासिद्धक
यूवमरवूजुल
सानीविलीसने उ
निरयू

न्याछोयाम्वविन्यासिद्ध
घकाव्याकूनथिवयू

तयाय्दमिध्वर
विदेशमचोड्स
थेनासचेनलाउ
पला थेकनासंवा
निलासाये ॥

गजायायात्रालक
मनंसिद्धरूयू

छिदेशसचोड्स
दछिनाथिवयूव

विदेन
सचोड्स
लिविवयूवमरवू
रोगिजप्यावचोन

उपद्रुवनल
यदप्यीवमनी
रुपू

संग्रामसलिल
वपथाकुन्ल

संग्राम
नेपवदम
अनेरूपयू

पनयगओठस्म
हीनकचोनाचो
न

विदमत
चोदुस्मनना
नेपिताबपिव
धयाकायेमग

नडागतिचायूम
खू

नाडगयायाशतनिवि
सैगनरुयूव

नागापाया
गालसैमूल
तिद्विरुयूव

चतुर्दशी॥६२
फ्वनिनावर्गाणिमा

खाजमइच्नमतिना

संग्रामसथवकयरुपू

पितातिपूलायप

मिलयरुयमालिव

ज्योस्नायास्मल
ज्यामवयका
वजिकून
ध्विवपू

विदं
गमस्वो
ठस्मदक्षि
नेथिरुयूव

विदगमतयाठस्मना
दनडाठतिहावयू
वा॥

उ
पडव
रुवनग
यदमिनवू

संग्रामनन्तानेथक
[illegible]नेदया

82

कवरोमिचा
सूवेलामाम
प्रदंथवहुम चायम
ननंनमलछान

नूगलनकिंछनम
लछिनिम॥

गजायाजाम
सकल्पान
इपुव संध्यामसगपु
याचालइयव

विंदमसवाहुस्वपि

पूर्णमा॥ ६४॥
नूगलम किछन

संध्यामनथवद स

हांवयावस्वाइान

याबोषलइलिषु
ताम्प्रतीयो॥

स४ायिवु

रुद्र

स्वाजमइम
नीमानवचि
तयारस
त

ज्या
छोयाम
याज्या
लिषयकि
मरु

बिंदगमसवाहुम
मदनोलिति॥

विंद
गअंद

डपव्वइवनक
[illegible]

नूगलमस्थिठ
पाहीठखनेद
यि॥

नुडाश्रागि
म्वायिडामख्

भूवस्यनेथक्कस्त्री
पाकायवृयुडा॥

संग्रामस्मजयहृयु
थुडा॥

संग्रामनन
नानेंडानदयि

पन्नदशस चाठक्क(थ

आदित्य १
स्त्रीयागर्भस

उपद्रवडान नडाधन

कनानालनाडाल्हा॥

कायक्कावचाठ
पाविचालयायि॥

स्रयदयिडा॥

विदशस चाठक्क
पिहाडानी

खारवमद्रु
क्कमदनी

क्काकायाक्कवि
लंसन्डायिडा॥

विदशस चाठक्क
ननानेंडायुडा॥

विदशस
चाठक्कडायि
डामखु॥

थ्वकुन्डीयाच्वा
चवृयृव॥

थ्वकुन्डीयाच
कुनथिमाचाव
यृडा॥

संभ्रमनविलंब
नेडायि

नृगलम
च्छीदनसनी
नसनागदयिडा

उपद्रहडा
नेबाजायापि
जाहयूनडाष्ट
एयदयि

गडानागीम्वाःयिडाक
ल्यानह्यू

साम २

विदनसचाछम

क्षीयाशीघ्रनेमा
चावृयूलासाय

गकालनडायिडा

पत्रदशाडाछकुथ्वक
मासस्खनेच्वानो
विदन
सचान
कयिहाडा
यधकचाब
डाविलंबनका
यिडा॥

खाउमदुकुसू
खंचाकुलिहा
अपमनमयाक

विदनसचानक
लिहाडायिडा
काच्छा
मखु॥
याकया
डानउनि

थ्वक्षत्रीयंगी
छनमाचावू
थ्वक पिडा
स्त्रीयाकरु
वछ्यनंका
पवपूडा॥

विदनासचाहस्त्री
पाननानंमाचा
वूपू॥

उपद्रहडान
एयदयि
आमघू विदमडाठ
क्षवितरुा
पिडा

न्गलमच्छीछनगु
रखछनेदयडाधं

अंगा
विदनावाहस्त्री

विदनासवाहक्ष

भ्रकायमन

यामाचावूललाम
वूनिलासाञ॥

खनस्याना

नडानागिम्वापि
आमखू पनद
नडाछ
क्षवितरु
नथनदंडा
पि

विदनडाछचाक्ष
पिहाडायाडास
खनचाछडाची
नी॥

क्षाञ्छाजाक्षन
वोउ क्षासिधयका
मदूक्ष डायिडा॥
लखनचूडा
लोगाम्वाकनि

विदनाचाड क्ष्मी
यामा चाक्षदस
ख्वक्ष डासी
क्ष्मीयालछि
नथिमाचाव्
पुडा

वंध्याक्ष्मीयाकाय
माचादपिडायकू
धमीपाननमहा
कष्टनदपिडा

विदनसक्ष्मा
ठक्षननाने
अपिडा विक्षावा
ठक्ष सुख
नेवाठनना
नेगापिडा

ख्वक्षक्ष्मीक्ष्मामूवा
वृयिकयाचिमूनपूं

वृष ४
वंध्याक्ष्मीयाम

क्षाक्षीयाक्ष

सकरुयाडावृयंरू

चादपितासाय

लसंक्षिन

नूगलमक्षीठने
क्षूरूयूडाम
नेडा
खू चोगिव
लनम्वा
पिमख्

पनदनअठ
क्षालिहाडाया
डासंसस्खेचा
नि

खोडमदू
विद क्षदूठखं
नसेवा चाठ
ठक्षथ
नूमडाजूने
नेमलडानि

वंथाम्ह्रीयाउअस विदल लयाछानमा चादयिउ सचाछम्ह्री याकायदयू	माचामदूपूनखे याकायदयि	विदलसचाछम्हलि हामउनिफ् म्हाछा नौ॥ याम्हनाग नेकयाउवा ना॥
थ्वम्हम्ह्रीयानिङ्गन थिमावाव्यू	वृहस्पतिउ माचामदुम्हपू नृपयामचादाय लाहाय	रवाउमदुम्हनाउदूरवसि याउवाना।सिहा उयमछना॥
थ्वम्हम्ह्रीयाकाय मचावूयूउ नूगल मछिनरव छनेमालिउ	नउनागीम्वाय थाकुकदाचनू म्वानसांनउक वनउनिम्वायू	विदलसचाछम्हथन पनद मउनिम्हनह्निनन लसचाछ वानेतिनि म्हथनमउ निमलउननेनालिन

माचामद्‌क्क्या मचादयिङा वंध्याक्त्री पाक्ष्वछ्यनं कायमचाद यिङा	वालख्वायाक्वत्रपा लयादाखनखाल	क्काछ्वायाक्क वि लंलनअयि ङा खाउम दक्कविल लनेकुनिङा पू
विदगमचाछक्क्रीयाक्र सङ्कनछ्वाक्क्मायमा चावूपूयिङा	शुक्र ७ वालकखाडयाक्र यादाघनखालसाय	विदगमचाछक्कग नैमङानाथनङा यिङा
थङाक्रीजिमसाक्र नथिमचावूपू थक्कक्री याक्काचम चावूपू	नूगलमक्किछनयि क्यालीछखछद यिङा	प्रदगमचाछ क्कभूनचा गङारो नाकुनि गीम्चायि मख्‌

माचामाखालम
खमयायाखे
मचाम न
दुक्कपून्
षयाकायदयि

बालखवालग्रह्या
दाखनवागीइले
म्हायूअमखूअन
नयाकेसाम्वोय
दू॥

खाऊमदूक्कमद
गाधंधाका
घमन विदस
मचाठम
ऊनित्थकना
मचानतुनि।

वंध्याछ्त्रीयाकाय
दयिअमखू

शनिश्चर ७
वालकनागक्क
म्हायिनामियिला
साय॥

प्रदशमचाठक्कग
नंमडाठलिहाऊ
ला।

विदशमचाछत्री
याविलेसन
मचाव थ्यक्क
प छ्त्रीयानि
थिमावा
वूयिऊ

थ्यक्त्रीयाकाय
वूयिऊसंसयका
यमन॥

क्वागीवासलया
नु यमम्यालेम्वा
गलेम पिडोमखू
छिठक्त्रीधा
तुयाशषन
सियिऊ॥

बालकम्वायिजसं दहमदू बालक खोलङानी नवोगदया डखालो	विवाहाणीप्रनं रु यूडा॥	खाजमदूक्मविदल अठक्मननानं कायिनङा नी
मचामदूक्मपूनू मयाक्माचदयि	नाद्रु ८ विवाहयायगल पाप्क्रजविवाहरु यलासाय॥	मजयागीम्वायिख हणसम्वायमन
संध्याक्मीयाजुनकज तयानानका यदयि विदमस चोठक्मीया नाघ्रनमाचा वयू	थ्वक्मक्मीयाणी घ्रनंकायदूयू द	नूगलमक्माठनली थ्वल ठखठनद क्मीयाभू यिजा वसनंकाय वूपूत्रागिजक रुयूडा॥

विवाहअतिशीघ्र
हयि

वालक
महासंसन
न्वायिडा

थ्वकन्स्त्रीडाविवाह
याङानअतिसुख
ञायिडामखु

पन्दशाडाङक्म
अननंमलडा
ना

हडाना गीया
लायलास्य
डाली

वालकखालथ्वाथ
स्याकयाभोगन

कउत
लालयाकन्स्त्रीडावि
वाहयाङनुराहय्
लासाय॥

नूगलमक्रिडयाम
लिंखनमालि

म्वामदूक्कपूनूमया
अनकउलया
ङानकाय
दायि

वंध्या
स्त्रीयाअ्
नकउलया
ङा नाम्ह्माचेद
प

विदशसवाङन्स्त्री
याम्ह्माचव्पिना

थ्व
कया
विसंहन
माम्वावृपि
डा॥

थ्वकन्स्त्रीयाम्ह्माचव्
पूथ्वकम्ह्माचङ्
यिनिथ्वेष्ठा
लाहय्

थ्व म्ह ल्लाववहाय्याडा
नमहास्तरवड
विवाह यू
डयुडाविघ्
जकडयूडा

वाल्लुकपराउद्ध
दडानमहाज्ञान
न्दड्डयिडा॥

नडानागि
पासायल तनम
यिमख्व छिडनकव
धनखवडनमा
लिडा॥

वालकनडाकम
नम्वायिडा हँमय
मम्वाल॥

जूछ्विनि॥१०॥
वाल्लुकयताडा
ङदनानकुनङ्डयि
डानामाय

थ्व म्ह ल्लियानिथ्वय
यनँ काय मावा
वूयिडा

वा लकरवात द मवा
वनाहाछिदा मदवू
बानरवा रेवेया
स्त रवदेत हँ
मवादयिडा
मरवू

वँथ्व म्ह ल्लियाँ मेवत
हँ मवादयिडा मवू

थ्व म्ह ल्लियान
विद नानँ मवा
नाम वूयि कल्ल
वाडल्लिया डकासि
नँ नानँ मल्लनी यमा
मवावूयिडा॥ स्त

थाकुथ ज्ञानपरम
थ्व क्षेम्ता गुरुसखलाय
ववहानथा
ज्ञानलीछह्यू
मलीनज्ञयू ॥

छ्दज्ञानगुरुभुउ
ज्ञयूमखूगुरुसख
ज्ञयूडा

नुगलमछिछ्हा
छवछ्नक्मने
न्द
थक्मक्री
याक्मावबू
पूमाचात्रागीह्यू

थ्ववज्ञाननिश्चयनं
ज्ञयू

ज्ञनथी ११
छथमदज्ञानथउ

थक्मक्रीविलेए
नमचावूपूडा छ

गुरुह्यपूडाला
साय ॥

छ्रुकामामन
सियूडा

वालकयत
याज्ञानम्चापि वा
उमछु लकखा
नीन
स नीगदया
उखाल ॥

मचामदूपूरव
याविलेवनकाय
क्माचदपिडा

विदक्षसवाछक्री
याकायमाचा
वंधा
क्रीयाउ पूपिडा
लेयाछका
पवूयू

कुदगनधन
वासुप नासह्नयम्त्रीपू
नधनधा उआकल
न्पगुरासखेचा
नेडा

गुमिलाहानिसका
यानसखीह्नयपू
हमिलाहदपिडा

थ्वम्कस्त्रीया
कायेदपू
थ्वम्कस्त्री
याहनिवि
लंहनमचावू
पे

थ्वम्ककान्यास्त्रीयाहा
याहनथ्वकन्याविध

कमिका१२
हासपागुरुहमिला

विदगसचाहस्त्री

ह्नपूजा॥

हानासकायानगु
हलाअगुहलासा

पागीप्रनेमचा
वूपूजा

विवाहङ्गपूजा
मखूधंधाको वाल
पाडास कसखे
नेमम्चा नेनम्चा
ल पिडा

वालकखालाअ
कस्मातमालस्या
गाडाखोला

वेंध्यास्त्रीयायहू
मा यागनमचाका
चामाद् पवयू
पूनूखया
विलहनपाउ
कापवयू

शुमिलाहातिस्रका
यानस्वार्थदिपि
छेद मखविवा
तानमध्य दश्चपू
मफलसृयू

तालपादमस्रकष्ठ
याचानस्तक्रिन
रूपूल

थ्वक्रक्रीया
सुखनंम
वावूप विदनस
वाचक्रीया
पू कष्ठनमवाव

वास्तुक्रानेसयाठ
मसासखेइयूश

वाहिनी १३
तालपादमक्रिन

वंध्याक्रीगोवे
लसंमोवाद

नाकाले

नवानपथिंडाला
सोये

यिमख

थ्वक्रक्रीयाविवाहा
नयाचानक्रीपूयू वि
वाहि
बालिधि यायता
लपाक्रउ
विवाहनी
घृंश्यपू

वालखम्वायूम
खूननानेसिपू

मचामदूपून
वा सथ्याभयीक
लक कायदपि
खाल
हूनयाधा
घेन

गलपादगसमन
गलपकाति
उमिला [illegible]रपू
गतिसक्काया
नसुखइपु

राज्यसउपद्रवजुक्रो
युमनुष्यपापीडाजु
यु

विदेशेस चोल
चाहक्री या वंध्या
सुखने क्रोया
मावा कायफ्का
वयु चदयि

छेदज्ञानमूर्थधर्म
कामभाक्षवापि

मृगशिर १४
राज्यसउपद्रवपक्षे

[illegible]
मोचाडुपुरुषयाक्री

ढकजुक्रोयासु भासु
मसोय

यागभसमोवा
दयिअमपु

वालुपेज्ञनम
ध्यमफल
थ्यल
ओविवा
हपाज्ञानसु
खजुयु

विवाहसल्वापुजुयु
क्रोशीघ्रनंविवाह
जुयुक्रो

वालकखोलो
वातपित्तयाधा
वाल याधातुन
कतक्रो खोलो
कष्टयाछ
नम्वायिक्रो

दे यि श्रीं सोये उथुलासाये थश्री नखुतायितयना॥
श्यासये॥ १०१॥

विदशशवीपा
तश्रोडल
याराम
दिवि
सो

भीनपा
त्रिभय
जैलेयाडा
नै लायिश्री
मरद

सेवायाडानखु
खदायिश्रीमखु

स्वसेयडवयाक
समीर्वसंदयल
साडानलायि
श्री

थडहिल
नवसंका
लयलनन
लायिडा

राजाया क्षाति द्विजुपु
थडात भतिलाभ
राजाया दयुश
गिरभाराविं
पाग्गुम्वातलेंचो
नि

थडडजरस राजाया
अदिकतमष्ठु क्षापा
पाथेयेनो ॥

विद्यासेंगनमहा
विद्याआदिनस
पु
तङवस्तु
कजत्तया
घारंलाप्पिम
खु

कुङचोङवस्तु सुखभोग्य
चित्तस्थान भूादिनप्राप्ति
गुयुडामखु

क्षष्ठा ॥ २७ ॥
थडडपरस राजातम
चाश्नेसान्तिजुपु
लामजुयुरासोपे

खुसेयङवस्तुअनेक
यत्नयाङनंलापि
मखु

चाकयिाहाम्ह
पाकेविलंभन विदे
कर्मदपिडा शलब्धा
पालडाङ
मचाकष्ठन
पाडाविलंभन
थेनि

भालपाविखपेबि
लंभनलापि

गामपापुहूखन
सेवा खुलथडाहित
पाहान मखु
भूमिलाभ

आशा सफूकुथि
ASHA ARCHIVES | 775 | I

८

राजा पातमवाजन
राजा प्रसादविपिडा
पाज्पा
।सद्धजु
स्थलिथाडातम
यदपिडा

नमानेशत्रुफु पिडा। पि

नङवक्तताकालन/
तुनिलॊपि।

खु सेपङ वल्लुलापि उमखु

राजानविपाजांगिरभा

मूल २८
थडानत्रुफुपिग

वक्तुकतापालेय

राताकालेचोनिडा॥

लामफुपिलासो

नप्रामिज्ञुपुमखु

फुडचोछसुखविजसान· ख्वीविलेभनप्रापि जुपुडा

चो कालि पाउ कौ वाकेतउधे उफार्यमसे वालाघु

विदेशसप्यालसउङ्क पामनससुखनचोना·

सेवापाङानभा भा रंभमात्रसु लपावि खवजुपु घयेनाना उा नेलापिमखु

शत्रुनाश ज्युयुडा
राजा नयंरू यि
तमचा
उनरपद
यि

राजानवोनकलहल खुसेङ वस्तुतापाले
अराजुयुडाविलंभया यानो खुन
यमते॥ खुडाव
पतुकावि
लंभनेजुयि

पूर्वाषाढ २८ ॥ सेवायाउनफल
राजायाज्यासिद्धिजु
युडा
राजनवोनकलहल लायिडामखु
कल्यानेजुयु
शुभाशुभतोये ॥

भालपाविषय
राजानजागिरभा
विनानेलायू
वाकरियाद्रव्यकेन
राविडायुघुला
देशस
महाविलंभनकार्यसि
दक्षिजक उर्वा
व्यापाल
द्धिजुयु
यानि ङ्कुरनमो
उहङ्कन
न्यचिते चां
संचोनातु नि
सि दक्षिनप्रा

नागानवानकल
ह्लरयदाषि
नकुथि ल्हेउपाय
मदू
नेनवानि
कूयिडामखु

कूजाडातउ क्वननानंपिका
यूज संदहकायमते॥ ॥

थडाग्रामयात्मी
पघाखुनखु
लमवने सेवाया
मखु गनेथडा
जिडाकूयुडा

नाजामम्वाडानम

उप्रारवाढा॥३०॥ ॥
कूढाउन॥म्ननना नंपि

गलघाविषयहाद
नथिलायिडामखु

वयाखिडमयययमालि
डा॥

नकायिवलाखाय॥

नाजायाक्वअनेक
वा
हिङ्किरयू जानवि
डा याणना
जाति नेथिर
नायानिमखु।

फूछयाछसुखलाग्यविन
स्नानक्वीदक्षिनथिगाय
अमंदहकायमके॥

विदहाडवाल
वा डाडकाहखे
कना नयाना।
याडान
थमतिना
नेकूलायिमखु

कृगनजाकविलं
लनपिकायि
जा

नाजान
वानकल
म्वायदयिम
खू

नाजायासवायागन
लमिमात्रफलसायि
जा

सवायागनफल
लायिजाथंधा
मदु॥

लल
पाविष
यनिम्वय
नेलापिव

न्हय्फूपिवगमल
नफूपिजा

ध्रवला॥ ३१॥
नाजाकाजियासवायाय

विदलभ्यापालंजा
दक्कपानमानंथापा

ललपानयागकिवलाम
यागकिवलासाय

ललाहदयिव

नाजागमचाजान
लयदयिजाम
खू

ना
जोपा
कालिद्ध
रापना

नाजानवियाजागिकलना
चानिजामखूचानसांदुख
स्तिपिंश्रास्तिदयिमखू॥

चाकवियागनगा
कालकर्मनफ
फूठ
चोठस
ललायूजा
खलाय
एकीआदिनना
नेगापि

माजायासवानकू
लमखमंत्रिया
कुछाडा सवानकूल
मजलन लाय
नीनेपिकापिमखू
मखू

मननशालपाग्र
लिननानेसिद्धि
ऋयू॥

गनपाविषय विद
दक्षिनथिला गमखा
यमखू पालडाकूकू
यामहाइछखवि
लंएनप्राप्तिनुयजा

अरिजित॥३२॥

माजानवानकलहडान
ायमद
कायनवानकलहल

मननशालपाका
यसिद्धंदयना
मरूपलाहा
य

वाकयियाछानकूल
प्राप्तिऋयमखू

माकूलयदयिमखूम माजा
कुकूयीमखूमाकू गमचा
नप्रीमियायू छानथव
जीवयापा
जाऋयू

माजापाकार्य
सविनेरानासिद्ध
ऋयूसंदहमूवी
ल

कूछचाछमुखविनेखान
ना प्राप्तिऋयूकमडा
जानाव कासियमालि
शानामाका
लैमान्नदयिका डा
डयानिडा

ममनगालपालिद्धिरु
नाजा पङ्गायिलङ्गप्राणि
पाखवीया रुपूजा ॥४॥
दानकस्यान
रुपूजा ॥४॥

विर्द्धगतयवीवानङ्क
लिक्षनदुःखवहियाव
चोनाविंगायायमलजा ॥

विदगनसचाठम्या
पालडाठक्तयाग वा
कनि
उदुःखयाने पाठान
अपूजा ॥ लक्ष्मिनपि
फललायजा ॥

कुठावडाफजातुन

धनया ॥२३॥ ॥
विदगनसचाठपरिवा

फलचाठसुखहाग्यपिन
स्थानयाकालक्ष्मीआदि

थिपिकापूजा ॥४॥

नसुखनचानालाम
चौलायाय ॥४॥

नलापिडा

नागानवानकलह
लमायदयजा ॥३॥
कुन
लयलाय
वेलमदजा ॥४॥

नाजानमचावन
लयदपिवमखूजा
पापार्थे कुगलन
चानिडा ॥४॥

नाजा नाजानजानिनसा
याकार्य नावियाउलिति
थिनदुयुडं नमहठला
मखसिद्धिमदु नवानि
जा

विदनस्ताचाछपनिवा
खुद् नमनयादूखन
बयामन चोनी
नभालपागु
धर्मरुलताकाल
नलापिव

मनुपरापाछनध
मिभाकामलापिंत

वाकमियानाफ्नपा
करूलदुयिमखु
वाकमितोल चाँदिगु
तिव॥ छतरव
कोसीआदिन
दर्छिनाथिला
पूतदहमते

ब्राह्मणपानाजायाका
जियास्वायाछनद

नम विषा॥३४॥
मंत्रकायानयजया

नाजानविमाजाजि
बरानाथिननया

छिनथिलाएदपिव

छनहुमनआसुमसा
ये॥

मिमखु

कुछानयाफ्वखिल
एनपिकायुडा नो
ज्ञान
यानव
नहलस
विधिरुपूर्व

नक्षत्रायुस्त्राछव
श्लेषमस्वानाडा
श्लेषमकवापायू

नाजापाकार्य
नाजा जिलानथि
तमचाव तिदिरूपत
ननवरुय
मलुउयेपुर

मंत्र यज्ञउरक्षरताया
चाउलि सिद्धिरु
निदथा
पूजा
नचा छपनि
जोन सुस्वन बाछ

थनागियत्नयाग
नम्वापिडाथथेन
यत्नयाङा

फुछबाछसुख
स्त्रीध्यादिन
प्राप्तिजुयु
नागानवियाजागि
चक्षिवनवानिडा

पूर्वभद्रा॥ऊ॥
पूनुषनमननरोल
नागिन्वापिडाला
सिपिडनामाय

नाजायाकार्यवि
लंगानसिद्धिजुयु

पाउलिननानंसिद्ध

नाजायासबायाकं
मखुमयाकंमखु
ध्रयालननाजसकाया
पिडा
फछ
आनडाक्ष
निदनाक
छजानवि
जो

नाजानवानकलह
लनधंधाकायमजे
क्षयानकयामद्रः
स्वहृपिडामखू

नाजाकमवाजानबाग
पामननमनममदू
सफसं
ताबहपू

श्री

भागियाभागन
मनु नानंलायिम
यङ्क्षानं ख
लयाछचतुपद
र्थदुःख लिपिडा

देवयाधाषनया
गिरुल

बाजानविपाहाना
आगिलनिंद याजा
नाचानि याकार्य
उ ननानतिद्धिद्धयू

विदमसपविवानगडा

उत्तरार्द्ध॥३७॥
भागिकूयाधाषन

बाजानमवाडानधनप्रा
लहानिरयू

द्धरवनम्याछाडावा
६

हलखतसाप

पूनकयामननराल
पार्गुलिसमध्य ना
आया
मफ्लली एवाया
य गननिङ्गन
नानंदयू

कूछानडाफविलिए
नपिकायिडाधनचे
पहुकफूाकमा
लिंग
श्री

गफुननानं
बाजा फूपिडा
नवानकल
हडानलयह
यूडामख

नागि
पासाली
नाखिछोपि
छा

मनुष्यानशुरि
चालयाछो
वनागिहल

नापिनवाछना
गिन्वायिमखु

राजायाका कार्यसिद्धिहयु
मखु कदाचिहल सांखिन
मखा छगु

राजाकम वाडा
पुद्धविमकाछसामि
हल

नकफूयीउमखु

मंत्रपञ्चयारंतया
नानछेरफललां
पिजा

बुवतीउगु

नापिनवाछ
नागिकुंगलहत
जालामहसालासाय

थमनकयद्दयी
डामखु

विदमभवाछ
पतिवानसूखन
वान

राजायाखवा
पाछानफल
लाईमखु

कूछ
डाकंडासि
मखुरयपुक
वानपुन्यया
छानकदाचित्वा
पडा

राजानवानकस
हलनथने
लाछ
यू

मनताल
पाकार्यसि
द्धिहयुमखु

धातुयाता
खनगारि
नेथिं
नोपायेम
ल

नापिनेचाहम्ह
नागिकुनलस
याङेवाह
नि

सोन्यायागअनेन
किसिवासियालोरा
दयिङा

नाजातमवाजानाथि
नायायेमत
तयदनसोन
ओधनहाय
मदू नकुनानंमित
दयुङा

नागिपानागहेयी
हामखवमलपुङा
पुङा

वैभापव ३८
सोव्यायाचासोत
दोपलमदापला
सायेयं॥

नाजानवानकलहलन
हाङ्किस्यङासदहका
यमगङ्कपायाथ
सिङ्किङ्गपुङा

मंत्रयन्त्रआरंभ
याकाननवस्तुक
लानि
दय

विद
मासुया
ह्याविवा
नकदावि
सियंह्

मननसालय
गुलिजङ्हय
आ॥

ना
आया
सवाया
जोनसम
हसिङ्का॥

कुठाउनजाल
देक्किनचिवि
कायिङा

लोकयाछनम
धामरुल
नां थिन
बाछलना
गिलतिकून
लाइत्याडोबा
जनि

प्रीतिपायलडाप्रीति
रुयूडामखूफूथ
रुलसानेपूनांकिब

नकअवसं
नंरुपू

नाडानवानक
लेहलनसखद
पिडा

मलेपूजायाफडाने
नपूछडाहल

अष्ट रुले
प्रीतियायलडा
प्रीतिरुपूडाला
सायो।

कुछाननअलमपिकाथि
डानखूमरुपूरुसूरुप
नयाकरुयाडमरुलु
रुयूडा॥

नागियानागय
हमांयाछनल
क्लिनलिछपू
डा

मं
ढजेग
आरंमया
डानमथन
रुलला पिडा

बिदनसबाछ
परिवारुठवन
चाना॥

मन
नछल
पाछलि
नाकालनथि
क्लिरुमूनथानेए
ल

नासापासवापाछा
छसवापाअनूसाद
नरुलनमदू

त्रितियाय भालपाल
श्रोत्रितिजुयिश्री
॥
लोःज्याया
ज्ञ न निफल
जुयिओ॥

राज्येस अर्न्नेथिक
यज्ञमु: वलिबाद
यिश्रीमरवु॥ ॥

राजानवीनकल
हलओनेमते
तश्राघङ
मयद
मु
अगश्री
नयालवि
कायिश्रीमरवु

तायिनेरोङ्गलरोगिनत
ओदुखसेयाओवोन

ओरवाद॥४०॥
राज्येसअन्नथिक

राजायासेवाया
यमंत्रियाज्ञ

तीन

यज्ञयेरलाःमजुय
श्रीलालोय॥ ॥

राजयाज्ञन
फललायिओ

सलिलयाधातुन
रोगिजुरेचित्ता
यायजुमाल
रोगिया
लोगनना
नंङयिओ

मंत्रयज्ञआरम्भ
याजनवपदार्थ
यालामरुङ॥ ॥

विदेश
रावोङ्य
रिवारनङः
खलियाओवोनो
मनजभालपाल
पाज्या सिद्धिज
यिओमरवु

जीतिया
पायेप्कव
जीनिस्यव
मु ... ... स्यु
मखु॥

राजेसजनाय
कयज्जुमेवता
सकनांदनिओ

जीनिज्याग्ग्न
नतिमावला
नदयिओ॥ ॥

कुग्ग्ओंतया
लंदछि
थिपिका
यिओ॥

एनाया
सेवाया
... य
... नेजुयु

लेजुयायानननओ ६६
लेजनदयिओ॥ ६६

श्रावना॥४१॥ वानिज्य
आग्गन लाभदयि
ओंगलोया॥ ॥

मननभालपामुरि
ननांलिद्धिजुयिओ

नाथिनेचोडरो
गियाजि
गुमदन

दाकिनि
नधुनश्व
रोगिसिय
लंकु॥ ॥

रोगियारोगवीलं
मनडयिओ॥ ॥

विदेशशचोड पारिवार
यामहाडयानजु
मंत्रस
जआरम्भया
साओचोड॥
ज्ञानदेवताया
ज्यासिद्धिजुयु॥

९-२२

बनिज्यया जन
लाभ दयुओ
मलु॥ ॥

राज्येस
मन्नदयि
नथि कय
जुयु॥ ॥

दारिद्रयया तधन
उत्पत्ति जुयिओ॥॥

राजायाके ष्ठा
सनज्ञमंत्र
सिद्धि जु
यु॥ ॥

मनसपाल
पाज्या विलंम
न सिद्धि जुयु॥॥

प्रीतियाय माल पा
[illegible]त्री[illegible] जुयिओ॥

[illegible]या[illegible]॥ दारि
द्रयया न धन प्रा
प्ति [illegible] लाभ द
यिओ [illegible]य॥ ॥

विदेशाशल बो [illegible]
परिवारयाकृपा
थेवेवसा लन
बोनेमयु॥ ॥

लोज्या याज
नमध्यफल॥

नायिनेवो
ड्लरोगिम
हाशंसयन
म्वाजनवोन॥

सलिलयाधा
तुनरोगिजुल
विता याय ममाल

मंत्रजज्ञआरम्भया
ज्ञानसिद्धि जु
यिओ मखु॥

रोगियाश
गई यिओ मखु
मृत्यु जुयूव॥ ॥

दारिद्र्लयात धनदत्य जिदयिडोमस्त ॥

अथयतुकघरि तयागनमध्य फल॥ ॥

मनंभालपा स्यानलानं विदेशतो लिहयु ऽपरिवार यिओ यानस्वामदया ओदुःखलियाश्रीवा न॥ ॥ ॥

वानिस्य यागनद्र लपुवान मदयिओ॥

राज्येमद्भायाअन्नथिक ग्रस्तुयाओवोनिओनि स्हूस्अन्नदनीओ॥ ॥

भाद्विन॥४३॥ वस्तु कथपितयाऽनला मदयिओ॰मदयि ओसोम॥ ॥ ॥

यंत्रमन्त्रआरम्भ याङानविलंभ नासिद्धिजुयिओ।

त्रितियायमारपाल्ह ओह्रापांमजुओ लिफसंग्रीनि मजुओ॥ स्रोआ याङान केसियाल डाथिजुयिओ

तायिनेवोऽह्ल रोगिकुशनवोन॥

रोगीयारोगवैद्यया वासलनहेयिओ दैत्यनपु ङावरोगि जुर॥ ॥

बयतुकथरितयाङा
नलाभदयिजो॥

पारिङल
याज्याथन्नु
लेलिहवला
यिजो॥ ॥

द्विलपूजायाङा
नद्विमृबोऽडवा
लायिजो॥ ॥

विदेशशबोऽप
रिवाररोगिजु
याओडुव मंत्रजन्न
नवोने आरम्भया
गननना नं
सिद्धिलाम्नुवं॥

कार्त्तिक॥४४॥द्वि
नवोऽधनद्राविजुयि
आरामजायिआसोय॥

वानिज्ययाननङु
गनहि लाभदयि

रोगियारोगसिड
आवावओजुय
करोगिजुयिजो

राज्यसअन्नधिक
जयू॥

प्रीतिया
यलजाग
लाथिप्रीति
रयूङा॥

सोज्यायाङन
मध्यफलला
यिजो॥ ॥

पिडवललाक
पानिमिलिगाणि
गापिने रललनेनानं
चोठधरे लाय
गिनेस्रोनथि
लायू॥

पृथ्वीसबोऽधन
नडाकलयाङा
नेलाचुव

वसुखरि
नयाङानख
रिनमियेमा
लिवु

दामत्याङनयाधनि
पुलेफसुव॥

मंत्रयज्ञआरंभया
ङानफललाचु
वमखु॥

रोगिया
रोगग्रहशां
याङानपाठ
याङानरोगलाचु

दारिद्र्यमनत्वाकरि
याङान.धनदयुमखु

मार्गसित्त॥४५॥
दामत्याङनयाधनि
पुलेफायपलामफुइ
नासाय॥ ॥

मनुष्यनअपचारयाङा
नरोगिजुलवुलुहून
लाचु॥

वानिज्ययाङा
नलाभदचु॥

राज्य
सम्मुन्न
थिकयज्ञु
युध्यकना
सचोनिमखु

प्रीतियाङा.याये
लम्बोपत्निजुनि
प्रीतिजुयु॥

नायिनेचोंम्हरो
गिकुशलमजुव

छोज्यायाङा
नदारिद्रजुयु

दामत्याऽनयाध
निकालननुनि
पुलेफयिव
दथीम
चोऽधनला
युमखु॥

शत्रुवल्लीनशत्रुफु
नकेफयुव

रोगियारोगन
नानंलायिव
वातपित्तसे
षमनेरोगि
जुल॥

वयनुक[illegible]निस्थाना
नलनेदयुमखु।

पौष॥ ५८॥
सेवयुवादयानानध
मत्वायुमत्वायुसा
य॥

नाइनेचोऽरोगि[illegible]धं
धाकायमम्वाल

दारिद्र्ययात
धनदयिव
मखुन
वी
निज्य
याऽान
लायवुद्धा
नाशत्रुयुव

राज्यसफविनंश्रन
थिकयजुयुवमन्देह
कायमम्वाल॥

लोज्यायाना
नेश्रीकलाभ
दयुव
प्रीति
यायेलव
ज्ञापायाथेंप्री
निजुयुव॥

शत्रुवल्वायजकं
दयुवशत्रुदृष्ट
मखु॥
त्याज्ञतया
धनिकपे: कु
पिनतिकुले फयुव

•२७
दामत्यायविपान
थ्वदामफयुव

वायुयाविका
रनरोगित
ल॥

पृथ्वीतत्वधनिनव
दुहयापूजायाज्ञान
लीयुव

माघ॥ ४७॥
रिनियानदामत्याय
बियानभम
भखभमाये॥

भोज्यायाज्ञनयुस
कुद्रानासनुयुव
सियमालिवनि
स्फुल॥

वस्तुखनयाज्ञन
लाभदयुव
दी
रिड
मननव
ङःवलियां
नधनदयिव

वानिज्ययाज्ञान
सोदेनलाभदयुव

शांतियायलवश्री
निजुसेलिपव
रा
ज्यसत्र जकमिड
न्यधिक ज्युव
यनज्ञपद
युव

नामत्यायवि
यानचोककथ्र
दिदयूव

नियंत्तधिवगाचो
नेफयूवडदवेयनत्ता
लनेमालिव

नाइतिचोकरोगी
पानरवदयाव

राङ्गुवत्वा
नानधमञकी
फुयुव

चोज्यायाङन
विपक्तिपरिश्रम
जकगयुव

धनिननालेफुलेफयी

फाल्गुन ४८
मीर्थनधिरनचो
नेफयीलामप
यीलासोये॥

प्रीतियायेसचचिलं

सन्देहमन्वाल

मनसंविप्रातिदयीव

पृथ्वीसचोड
धनलायीम
फु

मय
उरवरि
नयाङन
लामभक्ष
मफरना॥

दारिद्रमनमनलो
भदयीवमरवुध
नयाविंनानंश्रचो
सियुव॥

राज्यसअन्नधिकय
गयुवगलानधि
पनिव

वानि
ज्ययाङन
नेधनजल
निजकव